

Date: 04/09/2023

To,
The Listing Department,
Bombay Stock Exchange, Mumbai
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai - 400001

Scrip Code: 531334

SUB: Submission of newspaper publication regarding the date of AGM, Remote E-Voting and Book

Closure

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published i.e. on 03/09/2023 in relation to the date of AGM, Remote E-voting and Book Closure, published in:-

NAME OF NEWSPAPERS	DATED	LANGUAGE
Financial Express	03/09/2023	English
Jansatta	03/09/2023	Hindi

Please take the aforesaid on records.

Thanking You, For Vikalp Securities Limited

ARUN Digitally signed by ARUN KEJRIWAL Date: 2023.09.04
13:12:42 +05'30'

Arun Kejriwal Managing Director DIN: 00687890

ह्यां भी गाजियाबाद वाराणभी कानपुर अधिकतम 37.0 27.0 न्युनतम

जनसता 3 सितंबर, 2023

अयोध्या में शीघ्र बनेगा 'मंदिर संग्रहालय': सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने देशभर के प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक संग्रहालय बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी थी। उन्होंने बताया कि सरकार इस परियोजना के लिए एक विस्तृत खाका तैयार कर रही है।

खाका तैयार कर रही हैं। अयोध्या के आयुवत गौरव दयाल ने बताया कि यह मंदिर 10 एकड़ से अधिक भूमि पर बनाए जाने की योजना है और इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके

लिए भूमि का चयन अभी नहीं किया गया है। दयाल के अनुसार संग्रहालय में मंदिर के विभिन्न त्याल के अनुसार संग्रहालय में मंदिर के विभिन्न पहलुओं जैसे उसके ढिजाइन, निर्माण आदि को प्रदर्शित करने वाली अलग-अलग दीर्घाएं होंगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संग्रहालय की दीघांओं में देश के प्रसिद्ध मंदिरों की विशिष्टताओं और वास्तुकला को चित्रों और भित्ति चित्रों के माध्यम सं प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें 'लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा।

अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने संग्रहालय की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करनी शुरू कर दी है। कुमार ने कहा कि दम संग्रहालय का मख्य उद्देश्य हिंद

अयोध्या के आयुक्त गौरव दयाल ने बताया कि यह मंदिर 10 एकड़ से अधिक भूमि पर बनाए जाने की योजना है और इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

धर्म और इसकी विरासत के बारे में जागरुकता लाना है, साथ ही दर्शन, धार्मिक व्यक्तित्व, धार्मिक केंद्र, हिंदू तीर्थस्थलों को भी यहां प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिसर में

एक बगीचा, तालाब, कैफेटेरिया और बेसमेंट में पार्किंग भी बनाए जाने की योजना हैं। तीर्थ नगरी अयोध्या में कम से कम छह हजार मंदिर हैं और सामान्य दिनों में लगभग तीन लाख लोग यहां

जात है। जिला प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि मकर संक्रांति, राम नवमी, जुलाई-अगस्त में सावन झुला मेला, चाँदह कोसी परिक्रमा, अक्तूबर-नवंबर में पंच कोसी परिक्रमा और दीपों के पर्व दिवाली जैसे त्याहारों के दौरान यहा आने वाली की संख्या लगभग 10 लाख तक हो जाती है। अयौध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अगले साल जनवरी में खुलने

घास काटने गए तीन बच्चे लापता, पुलिस तलाश में जुटी

बरेली. २ सितंबर (जनसत्ता)।

थाना हाफिजगंज क्षेत्र से जंगल में यास काटने गए तीन बच्चे लापता ही गए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक चेतराम चर्मा भागा प्रभारत गरायक पराराम जमा ग बताया कि गुमशुदगी का मामला दर्ज कर पुलिस लापता बज्जों के परिज्ञों के साथ उन्हें ढूंढने में जुटी हैं। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा रागय बीत जाने के बाबजूद उनका

न्यावा रागम श्रीत जाने के बावजून उनका कोई सुराग नहीं विला है। धाना हाफिजगंज की पुलिस से गिली जानकारी के मुताबिक चेनामुरारपुर गांच के रहने वाले हिम्मोंचु गादल (14), अनुज शर्मा (12) और सुरेन्द्र याएच (13) भी साइकिलों से मल्लपुर के जंगल में घास काटने के लिए सुक्राजार को सुबद के समय गए थे। देर रात तक उनके वापस्य नहींटने गए था दिर रात तक उनक वापस न लाटन पर परिनों ने पहले तो उन्हें खुन तताश किया और बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी है। थाना प्रणारी निरीक्षक नेतराग नर्गा ने बताया कि जंगल की ओर जाने वाले सस्ते की सदक पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करने पर सिर्फ एक स्थान पर जंगल की ओर जाते हुए तीनों बच्चे एक साथ दिखाई दिए हैं। उसके बाद

बच्चे एक साथ दिखाई (एए हैं। उसके बाद उनकों कोई बाहियों पुरुचेन बादी मिला है। लापता बच्चों के परिजनों की तहरीर पर शाना पुलिस ने गुम्प्यूएनों का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस परिजनों के साथ मिलकर शुक्रवार रात से ही लागाता चर्चों की तलाश में जुटी है। लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला सकत है। समा पीखरों और तालाबों की भी जांच कराई जा रही है। रही है।

रहा ह। परिजनों ने उनके किसी तालाब में नहाने के लिए उत्तरने और हादसा होने की आशंका जताई है। इसलिए पुलिस हर पहुलू जाराना जारिह है। है। से लापता बच्चों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने यह भी बताया कि नौंदी कक्षा में पढ़ने जाला हिमांशु यादच पहली जार गांच के दो बच्चों को साथ लेकर जंगल में घास

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 नानौता (सहारनपुर)

ई-निविदा सूचना

के 1-11-14य धूजना इस मिल समिति में सिविल कार्यों हेतु अनुमवी/पंजीकृत निविदादाताओं से दिनांक 05.09.2023 से दिनांक 14.09.2023 सांय 6:30 बजे तव **ई-निविदा आमंत्रित की जायेगी।** जिनकी तकनीकी/फाईनेनसियर बिड दिनांक 15.09.2023 की प्रातः 11:15 बजे खोली जायेगी तथा एल निगोशियेशन भी किया जा सकता है। अन्य समस्त जानकारी के लि मिल के सहायक अभियन्ता सिविल (मो0 8077499615) से प्राप्त क पकते है। अधोहस्ताक्षरी को एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। प्रधान प्रबन्धक

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising output to acceptance of advertising output to the properties of the properties of

SBC EXPORTS LIMITED

CIN: L18100UP2011PLCc43209

Regd. Off.: HOUSE NO.-20, LOHIYA TALAB, CHOTI BASAHI
P.O.: VINDHYACHAL MIRZAPUR UP 231307 IN
Tel: 0120-2895246, Email: info@sbcexportslimited.com, Website: www.sbcex

NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

- Notice is hereby given that:

 The 12th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Tuesday
 the 28th day of September, 2023 at 10:00 a.m. at the registered office of the company at
 House no.-20, Lohlya talab, Chool basalit P.O.: Vindinyachal, Mirzapur-231307, Utter Pradicish
 to transact the business that will be set from in the Notice of the Meeting of the Section Copies of the Notice of the Not
- registering/updating email addresses: lers holding share(s) in dematerialized form, are requested to register their email
- address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. The notice of the 12th AGM and Annual Report for financial year 2022-23 will also be made available on the Company's we
- Exchanges is. As BSE Limited and National Society Control of London and www.bseindis.com.

 A fember entitle for stated and voice is entitled to appoint a proxy to attend and voice on a poli, instead of histories upon the control of the control of

- memorarizouse/Jumonased representatives should bring the out yillied attendance Silge enclosed in Control of the meeting. The Register of Membras of the Company will remain closed from Wednesday, 20th September, 2023 to Tuesday, 28th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AOM) for the purpose of Annual General Meeting (AOM) Annual purpose of Annual General Meeting (AOM) Annual purpose of Annual General Meeting (AOM) The Control of th
- Annual Report for the financial year 2022-23 including notice of 12th AGMI along with Antendance Sipa and Proxy Forms have been sent on Email IDs of those members whose E-mail IDs are registered with the Depository Participant(s)Company, unless a member has requested for a physical copy of the same. The Documents shall be sent through permitted mode to all members holding shares in physical mode. Documents referred to in the notice and the explanatory statement shall be kept open for inspection by the members at the registered office of the Company on all working days (Monday to Saturday) from 10.00 a.m. to 01.00 p.m. except holidays, upto the date of the meeting.

Date: 02.09.2023

For and on behalf of the Board For SBC Exports Limited

काटने गया था। घर से पढ़ने गए बच्चे

पहुंच गए वृंदावन

हाथरस २ सितंबर (जनसता)।

शुक्रवार दोपहर घर से ट्यूशन पढ़ने की शुक्रवार तीपहर घर से ट्यूशन पढ़ने की करकर निकल कच्चे देश मात कर नहीं लीटे तो परिजनों ने संभावित टिकानों पर खोज करनी शुरू की तिलाश में असफल परिजनों ने चच्चों की गुम्बुरी की राय धाना मुस्सान में दर्ज करती शुरू के दिलाश में दर्ज कर प्रालम में दर्ज करावाँ है। देर रात तक पुलिस के प्रवासों से नाराज परिजनों ने रोड जाम करने का प्रवास किया लीकन देर रात चच्चों के वृद्धावन में होने की खबर पर परिजन शांत हो खार

थाना मुरसान के नगला खरगू निवासी आलोक शर्मा के वो पुत्र मनु (12) व यश (10) मनु कक्षा पांच और यश कक्षा चार में पढता है। शकवार की दोपहर लगभग दो बजे अपने गांव नगला खरगू से रोज की तरह कस्बा मुरसान ट्यूशन पढ़ने की कहकर गए थे। बच्चे जब ट्यूशन पढ़ कर घर नहीं लौटे

तो परिजनों ने अध्यापक से संपर्क किया तो पता चला बच्चे ट्यूशन पढने आए ही नहीं हैं। जब बच्चों की संभावित ठिकानों पर हैं। जब बन्जों को संभावित ठिकानों पर तलाश करने पर भी बच्चों का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने बन्चों का अपहरण हो जाने को आशंका जताते हुए मामले की शिकायत थाना मुस्सान में दर्ज करा दी। देर रात तक बच्चों का पता न चलने पर पुलिस पर लायरचाड़ी बरातने का आरोत लगते हुए गाव वालों के साथ मार्ग जाम करने को

वात कह कर थाना मुरसान के वाहर प्रदर्शन गुरू कर दिया।

शुरू कर दिया।

बाद में बच्चों के वृंदावन में होने की
खबर मिलने पर परिजर्मों ने राहत की सांस
लगा मुस्तान प्रभारी ने बाता की
सोंभ बता मुस्तान प्रभारी ने बाता की
सोंभ बता मुस्तान प्रभारी ने बतावा की
सोंभ बता बूज के अंत्र में रक्षावंधन पर्व की छटा
देखन की लिलक बच्चों को वहाँ ले गई होगी।
पुलिसकमी परिजर्मों को सांख ले रात में ही
चृंदावन के लिए निकल गए।

सड़क हादसे में बुजुर्ग दंपति की मौत

हापुड, २ सितंबर (जनसत्ता)।

स्कूटी सवार बुजुर्ग दंपति की राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर एक कैंटर ने पीछे से टक्कर राजमाग-09 पर एक करर न पाछ स टक्कर मार पी. पिल्लुचा कोतवाली क्षेत्र के जिंदल नगर पर हुए हादसे में गाजियाबाद जनपद थाना साहिबाबाद निपासी पित-पत्नी गंभीर घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर आई पुलिस ने बुनुगं को इलान के लिए निकटक्वी

प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने घायलों को सरस्वती अस्पताल में रेफर कर दिया। जहां चिकित्सक ने दोनों को मनक घोषित कर दिया। थाता प्रभारी को मृतक भोषित कर दिया। बाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि दंपति की पहचान मोवाइल नंबर से 65 वर्षीय आनंद व व 63 यर्षीय राजरानी के रूप में हुई। राजरानी मृतका का मायका मेरठ में है। दोनों पति– पत्नी रक्षावंधन मनाने मेरठ गए थे।

ऊपर निर्देशित कागजात कम्पनी के संकेत स्थल Website : www.vikalpsecurities.com पर स्टॉक एक्सचेन्ज के संकेत स्थल बी.एस.सी. लिमिटेड www.bscindia.com पर उपलब्ध हैं तथा कम्मनी रिजस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेन्ट स्काई लाइन फाइनेन्सियल सर्विसेज प्रा०लि० के संकेत स्थल www.skylinerta.com पर भी उपलब्ध है।

प्रा० लि० के पास मौजूद हैं।

कम्पनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम 2014 का नियम 20 तथा धारा 108 के अन्तर्गत तथ सेकरिट्रियल स्टैण्डर्स-2 जो वार्षिक आम बैठक के बारे में जारी किये गये है और सेवी (लिस्टिंग आबलीगेशन एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) नियम 2015 ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स'') के लाग पावधानों तथा उनमें समय-समय पर किये गये सुधारों के अनुसार, सूचना में तिल्लिखित सर्भ विषयों पर सदस्यों को वार्षिक आम बैठक के स्थल के अलावा अन्य स्थल से मतदान की सुविध एन. एस. टी.एल. ई-सेवा के गाध्यम से इलेक्ट्रानिक मतदान की सुविधा ("रिमोट ई-बॉटिंग") से प्राप्त होगी। सदस्य, जिनके पास कम्पनी के शेयर भौतिक स्थिति में उपलब्ध हैं तथा जिन सदस्यो ने अपने ई-मेल पते का पंजीकरण नहीं किया उनके लिये रिमोट ई वोटिंग पद्धति का विवरण सचन

विकल्प सिक्योरिटीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय 25/38. कराची खाना, कानपुर- 208001 CIN: L65993UP1986PLC007727 Contact: Mob.: 0512-2372665

37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-मतदान और बुक क्लोजर की जानकारी प्रतरहास सनित किया जाता है कि **विकला सिक्सोरिटीज विधियेर (कसाबी**) के सरस्यों की 27र्त वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर 2023 को प्रात: 9.00 बजे (भारतीय समय के अनुसार) कम्पनी के रजिस्टर्ड आफिस 25/38, कराची खाना, कानपुर- 208001 प वार्षिक आम बैटक की सूचना 11 अगस्त 2023 में उल्लिखित विषयों के अनुसार होगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 101 और 136 के प्रायधानों के अनुसार और उसर

साथ पठित कम्मनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम 2014 का नियम 18 और लागू होने वाले किसी भी अन्य प्रावधान के अनुसार, विशेष तथा सामान्य प्रस्ताव जिन पर ए. जी. एम. में विचार-विमर्श होगा, की सुचना के साथ अटेन्डेन्स स्लिप एवं पोक्सी फार्म और विनीय वर्ष 2022-23 के लिए

वार्षिक रिपोर्ट बुधवार 30 अगस्त, 2023 को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को निर्गमित कं गयी है जिन सदस्यों के ई-मेल गते कम्पनी / टिगाजिटरीज / स्काइ लाइन फाइनेन्सियल सर्विधेऽ

mited@gmail.com Website: www.vikalpsecu

कम्पनी के सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि:

- (ए) रिमोट ई वीटिंग की प्रक्रिया की शुक्रवार 22 सितम्बर 2023 (भारतीय समय के अनुसार प्रात 9 बजे) प्रारम्भ किया जायेगा और यह प्रक्रिया रविवार 24 सितम्बर 2023 को (भारतीय समय के अनुसार सायं 5 बजे) समाप्त होगी। इस समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग का प्रारूप मतदान के लिए एन. एस. डी.एल. हारा बन्द किया जायेगा।
- (वी) सदस्य के मताधिकार, ("कट आफ तिथि) सोमचार दिनांक 18 सितम्बर 2023 को कम्पन के प्रदत्त इववटी शेषर पूँजी में सदस्य के शेषर की संख्या पर निर्धर होंगे।
- (सी) वार्षिक आम बैठक में बैलट पेपर (मत पत्रिका) के द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध व जायेगी। जिन सदस्यों ने वार्षिक आम सभा से पहले रिमोट ई बोटिंग के माध्यम से मतदा नहीं किया है वह सदस्य ए. जी. एम. में मत पत्रिका के माध्यम से मतदान के लिए पात्र हैं जो सदस्य वार्षिक आम सभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करेंगे वह सदस् भी चार्षिक आम सभा में उपस्थित रह सकते हैं, किन्तु उन्हें दुबारा मतदान करने की अनुमित नहीं मिलेगी।
- (ब्री) ऐसे सदस्य जिनके नाम 18 सितम्बर २०२३ जो ३७वीं ए जी एम. के लिए कट शाफ तारीख है रस तरिय जिनान में निर्देश कर किया है। उस किया के किया के किया की किया की किया की स्थान की किया की स्थान की किय इस तारिय की रिजस्टर आफ मैम्बर्स / लिस्ट आफ बेनीफीशियल ऑनर्स में पंजीकृत होंगे ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग तथा ए. जी. एम. मैं मतदान के लिए पात्र होंगे। जो व्यक्ति कट आप तारीख को सदस्य नहीं हैं, उस व्यक्ति के लिए यह सूचना मात्र जानकारी हेतु है।
- (ई) अगर कोई व्यक्ति यह सूचना निर्गमित होने के बाद कट आफ तारीख से पहले कम्पनी क अगर काइ व्याक्त यह सूचना ानगामत राज क जाव कर जाव जाव का उर्वत । सदस्य बनता है तो वह व्यक्ति ए. जी. एम. की सूचना में उल्लिखित पंकिया के अनुसार क यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- (एफ)ई–मतदान सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए सदस्य http:// www.evoting.nsdl.com. के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध 'FAQ' तथा ई चोटिं मैनुअल देख सकते हैं अथवा फोन नम्बर 18001020990, 1800224430 पर एन. एस. टी एल. से सम्पर्क कर सकते हैं।
- (जी.) रिमोट डे वोटिंग तथा ए. जी. एम. में मतदान प्रक्रिया योग्य और पारदर्शी स्वरूप में हो इसकें . स्क्रूटनी के लिए श्री आदेश टण्डन, प्रैक्सिटिंग कम्पनी सचित को स्कूटनी अधिकारी नियुत्त किया गया है।
- (एच) प्रस्तावों पर परिणाम ए. जी. एम. समाप्त होने के बाद 48 घंटों में घोषित किये जायेंगे और प्रस्तावं के पक्ष में आवश्यक मत प्राप्त होने पर वह प्रस्ताव ए. जी.एम. की तिथि को सम्पन्न होगा।

(आई) मोषित परिणाम तथा स्क्रूटनी अधिकारी की रिपोर्ट कम्पनी की वेवसाइट और एन. एस दी. एल की वेवसाइट पर उपलब्ध होंगे तथा इनकी जानकारी बी.एस.सी. लिमिटेड के

इसके साथ आगे सूचित किया जाता है कि, अधिनियम की घारा 97 के तहत कम्पनी के रजिस्टर आफ मेम्बर्स और शेयर ट्रांसफर बुक्स ए.जी.एम. के लिए सोमचार 18 सितम्बर, 2023 से रविवार 24 सितम्बर, 2023 तक (दोनों दिनों को शामिल करके) तक बन्द रहेगा । कते विकल्प सिक्योरिटी लिमिटेड के लिए हस्ताक्ष दिनांक :02 सितम्बर 2023

अरुण केजरीवाल (मैनेजिंग डायरेक्टर

Indian Bank

दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा प्रथम तल, मुख्य शाखा भवन, हजरतगंज, लखनऊ-226001 फोन नं. 0522-2288988

परिशिष्ट-IV-A" (निगम 8 (6) परन्तुक देखें

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं युनर्गंडन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) 2002 के अर्न्तगत एवं

प्रतिभति हित प्रवर्तन नियम 2002 के पठित नियम 8/8) के अर्त्तगत बैंक में बंघक रखी अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी की सचना ति होता है कि होता है के देश होता है कि होता वैचारित होता है के देश होता है कि विचार विचारित होता है कि होता है कि

क. सं.	क्यारकर्ता / प्रोग्यद्दर / साझेरार / निदेशकरण / स्थाककर्तार्थी / जयानतकर्ता के नाम एवं पता	प्रभारित / कंग्रक / दृष्टिकंशक की गई परिसम्पति (परिसम्पत्ति से संबंधित सभी	मांग सूचना की तिथि कब्जा सूचना की विधि	(ख) धरोहर राशि	ईएमडी जम करो की तिथि व समय
		भाग व एवं हिस्सों सहित)	प्रतिभूति ऋण राशि	(ग) ईएमडी जमा करने हेतु खाते का विवरन	नीलामी की तिथि एवं समय
				(थ)वृद्धिशील बिंड चरि	संपत्ति आईडी नंत
1	1.मैक्स सुकल्प इंजीनियारिय कॉमेरिशन (ख्यारकती) प्रीपचईटर की मीरक खुनार अग्रवाल पुत्र भी शुंदर पुनार अत्रवाल निवाली 9/21 विवाली चैत्तर, संबंध गांधी दुल, तरदनाठ – 22010. 2. मैक्स सुकल्प चुनेसी (ख्यारकती) प्रीपचंदर भी स्ट्रीय कुमार अग्रवाल पुत्र भी सुरार कुमार अग्रवाल निवाली – गय बाला करता अमार्थ गया किन्द्रर मिरक कुमार अग्रवाल निवाली – गय बाला करता अमार्थ गया किन्द्रर	क्षेत्रकल — 0.183 देक्टेकर, रिध्या नावस्ता कार्या, परणमा, तहसील एवं जिला — तस्त्रनक ज्योंकि की नीत्त कुमार अग्रवाल एवं की सरीय कुमार अग्रवाल दोनों पुत्र की सुरेश कुमार अग्रवाल के नाम पर है। मीडवरी— विको विलंख के अनुसार। उत्तर : जेत पंत्री एवं नाम दक्षिण : स्पर्धिन स्मार्ग्य ताम दक्षिण	1. 29.08.2019	(#) W. 1,74,16,000.00	18.09.2023 सार्थ 05.00 बजे तक 20.09.2023
श्री गीरज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री पुरंस कुमार अग्रवाल निवाली 9/21, दिवानी कैलेत, लंजव गांधी तुरम, लंडनक — 220016, 2. मैंचली सुक्त्य एडेंसी (कांसकती) प्रीयपहंटर श्री संदीय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुरंस कुमार अञ्चल, निवाली—1, नव बस्ता कला, उमहर्च प्रात्म कांस्त्र कराई प्रमुख खेळाडाड होट.			26.11.2019	(4) ₹. 17,41,600.00	
			(मैसर्स युक्तम इंजीनिमरित शॉपरिशन में)	(ग) खाता संब 21781483876 IFSC-IDIB000H561	
			2. 12.12.2019		
	लावराज-१७४०१६ ९ भी नीरज क्रमार अवकात एवं भी गरेश क्रमार		11.11.2022 (मैसर्स सुकल्प एजेंसी में)	(F) 50,000/-	पूर्वन्हि 11.00बजे से
	१५ कीट ।	1.17 1,29,05,303.95		अपरान्ह 4.00बजे	
	ार जाबाद शिवारी कुक्त इंकीनिकारित कोनीराज पर मैरारी कुक्त है। भी में जुमानकर्ता ने मांका निकारी मांका निकार है। र लंबनफ -22016 है. भी खील खप्रवात पुत्र भी गोवल कुण कहा शिकारी खुक्त वंशीनियोग कोचरिया में जुमानकर्ता, गीती - 151 में कि ने नहारागर, राज्यात - 22000, 2 में भी रह रह सी, आर्जान, सकान-22006 है, भी खुमा बच्चाता पुत्र मेरी अप्रवात शिक्त पंत्रकार प्रवास में मानाकर्ता, निकारी पुर प्रसान	कम्बा का प्रकार-संबंदितक कम्बा	वित 20.00,20% तक + ज्यान एवं अन्य वर्ते (मैसर्स कुम्ब्य इंथीनिश्वरित श्रीवेश्यन में) 2.स 54,59,389.00 रिठ 25.00,20% तक+ व्याज एवं अन्य खर्चे (मैसर्स सुकल्य एजेंसी में)		संपत्ति आईकी नंत IDIB8423202104
2.	1 मेससी आजाद फायर वर्ष्स एण्ड अम्बेतास (खाशरूका) — प्रोप मो स्कीक पुत्र में मूर्वीन निवासी-253/88, नादान मास्त रोड स्वापना-26004, 2 मो स्कीक पुत्र मो मुगेन (ब्रीमश्चीटर/जमानतकाती), निवासी- 11 :203/61, नावान महान केंद्र, सकानाट-200004, 2466/260, रोसकार्यम, स्वापना कारती, हरीनातर स्वापना-26001	04 एक ए.सी-05, सी. 84.874 दासीसी, बनाया मधा पूरामा मधाना में. 253 /81, मधाना महाल एरंड, लखनाक-226004, कार्यातम्य मुख्य रिक्ट्रास्ट्र, स्वयन्तानं गुरुतक को १, खंड सी. 6357 विमोक २. 022005 को एजीवृत्त है। चीडरदी- ततार- मधान महत्त रोड, दक्षिण- मार्क, पूरान- तरोवस्य भणिद परियम- विराण अपवाल ची चन्यारि।	02.08.2018	1.8) 1.8 55,54,000.00	18.09.2023
£.			11.10.2018	⟨3⟩ ₹.5,55,400.00	सायं 06.00
			रू 1,05,50,833.00 दिठ 04.05,2018 तक + ब्याज एनं अन्य खर्ने	(ग) स्ताल संव 21781483876 IFSC- DIBSOOH581	बजे तक
					20.09.2023 पूर्वान्ह 11.00बजे से अपरान्ह 4.00बजे
				(ti) 25.000/-	
		कब्जा का प्रकार-भौतिक कब्जा			संपत्ति आईडी नंत IDIRE423202102

संपत्ति और उत्तके निरीक्षण के बारे में सत्यापन के लिए, इंडियन बैंक — दबावग्रस्त आं कारी के लिए इञ्चुक बोलीदाता **फोन नं. 0522—2288968** से संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी और निषम एवं शर्ते डाउनलोड करने के तिर, कृष्या देखें–i. https://libapi.in ii. https://www.mstcecomm सरकेपी अधिनियम 2002 के तहत च्यारकार्याओं / जमानतकार्याओं को बिकी सूचना के बारे में अधिसूचित किया जाता है।

मंत्री एके शर्मा का सपा पर बडा प्रहार, कहा- सात पापों से बनी है सपा

वाराणसी, २ सितंबर (जनसता)।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री और कई मंत्री भोगी में कैंग कर रहे हैं। इस वैदान लगातार हो रही समाओं में एक दूसरे पर फ्रार किया जा रहा है। इसी कम में मोसी में जनस्या को संबोधित करते हुए गोगी केंद्रिक के नगर यिकास एवं जर्जा मंत्री एक शर्मा ने चड़ा घयान दे डाला। उन्होंने कहा की समाजवादी पार्टी पार्पी से बनी पार्टी हैं। इस्से सावध्यान रहने की जरूरत हैं। जनसभा की संबोधित करते हुए मंत्री एके शर्मा ने अनिवाद की कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब आंबेडकर और पाँडेत दीन दयाल उपाध्याय के बताए रास्तों और आदशों पर चलने वाली पार्टी है।

नहर में नहाते हुए डूबे चाचा-भतीजे

हापुड़, २ सितंबर (जनसता)।

थाना देहात क्षेत्र के गाँव काठीखंडा स्थित मध्य गंगा नहर में कुछ युवक नहाने गए। इस चौरान मीहल्ला इंदगढी के चाचा-भतीजे गहरे पानी में डूब गए। सुपना पर आई पुलस ने गोताबी के चाध्यम से 25 वर्षांग संदीय पुत्र प्रवाद तथा भतीजे 16 पर्योध मिशाचु पुत्र सुतील की ताताला कराई। लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। सूचना पर आए परिजनों का अनहोनी की आशंका से रो रोकर बरा हाल है। दोनों की तलाश को नहर को जल स्तर भी कम करा दिया गया है। बताया जाता है इंब्रगड़ी के संबीप व बिपांसु पानी में तैरना जानते हैं। वो अकसर नहर में तैरने जाते रहते थे। सुक्रवार शाग सत्यवीर आदि के साथ दोनों नहर पर गए। नहाते समय गहरे जल में जाने पर सत्यवीर तो जान बचाकर नकात समय गंकर जल म जान पर सत्यवार ता जान बचाकर नाहर क्षा गंग ननिक दोनें चाना-पतिने दून गए। गुलिस ने पहले स्थानीय लोगों से तलाश कराई बाद में गोताखोर खुलाए ग्रंगे। क्षेत्राधिकारी अशोक सिसौदिया ने बताया कि शनिवार दोपहर चाचा संदीप का शव गोताखोर ने नहर से बरामद कर लिया जबकि युवा भतीजे की तलाश जारी है।

www.readwhere.com

00

स्थानः कानपुर



ocentrusten of Finencial Assett and Enforcement Secretary was men in state, user the Securitization are versioned powers continent under Secretary 13(2) and within 43 of the 43,000. (Act no. 64 of 2000) and 0002 issued a demand notice coaling upon the following borrowers to repay the amount mentioned in the notic aring within 80 days from the date of receipt of the seal notice is firety by the amount mentioned in the notic The borrowers having falled for repay the amount, notice is firety secretary to the borrowers and the public mention of the secretary that the secretary of the seal notice of the seal notice. The borrowers in particular and the public in general is hereby caucioned not to deal with the property and The borrower in particular and the public in general is hereby caucioned not to deal with the property and sensing with the property will be assigned to the charge of Union Seals of the an amount of dues collistants.

together with interest thereon with costs and charges. The borrower's attention is invited to provision

SL No.	Name & Add, of Borrower/Guarantor & Name of Branch	Description of Mortgaged Property	28.08.2023 Rs. 44,08,616.65 with Interest as on 01.04.2021 further interest & charges thereon	
	Guarantor: Mr. Sita Saran S/O Mr. Bachan Lal, Address: Village- Bhitaura Lakhan,	Kharsa NU. (Plot) 508, area 2510 sgmt. Situated at Village- Bhitaura Lakhan, Pargana- Sidhour, Tehsil- Haidergarh, Dist. Barabanki (UP) Boundary: East: Road Kharanja,		



Branch: Kurukshetra Main, Haryana

POSSESSION NOTICE (For Immovable property)

from the date of notice/recept of notice.

The Borrowers' Guarantors' Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken the symbol possession of the propertyled escentible Arein Albeit in warrise of the powers conferred on him/her under possession of the propertyled escentible harein bollow in waversics of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said fact read with rule 8 of the said fusic, on the dates mentioned against Term Loan an overdraft account. The Borrowers' Clivarantors' Mortgagor in particular and the public in general is hereb cautioned not to deal with the propertyles and any dealing with the property will be subject to the charge of tunion Bank of Intels of the amount and infrared thereon; gene hallow:

Name of the account / borrower (s)/Guarantor(s)	Description of property Mortgaged	Date of Demand Notice	Date of Posession Notice	Amount Outstanding as on date of notice	
Borrower: Mr. Sant Kumar S/o Sh. Rameshwar Dass & Mr Akash Sharma S/o Sh Sant Kumar	Residential house,	situated at	H No. 19	Forty Five Lakh Twenty	
Kurukshetra 136118, in nar purchased vide registered se bounded as under:- North: Stre	le deed 6103; Dated 04.11.	2019 and t	he same is	interest thereon from	

Chola

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED orate Office: Chola Crest C 54 & 55, Super B – 4, Thiru Vi Ka Industrial Esta ty, Chennai-600032, India, Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pi Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

recept of the said votice.

The borrowers having failed for repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in guirdular and the Public in general that the borrowers having failed for repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in guirdular and the Public in general that respective dates mentioned in Column [7] in cause due to the provision conferred on him under Section 13(4) of the Act read with hillion of the Rulet imade from the resultance.

Also if the Rulet imade from the resultance is a section of the provision of act the dual with the proposition enclosure of a Column (2) is given that the provision enclosure of the Column (2) and the Rulet imade (3) and the Rulet image (3) and the Rul

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redee including all costs, charges and expenses before notification of exist.

SL NO	NAME AND ADDRESS OF APPLICANT & LOAN ACCOUNT NUMBER	DATE OF DEMAND NOTICE	OUTSTANDING	DETAILS OF PROPERTY POSSESSED	DATE OF POSSESSION
[A]	[R]	[C]	[0]	(E)	[F]
Loan A/c No. HE02DEF00000002774, X0HEDEF00002837966, X0HEDEF00002962258) 1. MANOJ ARORA 2. PRITI ARORA 3. ABS CLOTHING (THROUGH ITS		19-06-2023	Rs. 2,84,48,918/- as on 19-06-2023	Entire First Floor Consisting Of Four Bedrooms, Drawing Cum Dining, Kitchen, Latrin, Bathroom, Lobby, Balcony Etc. And One Servant Room On The Terrace / Second Floor Alongwith One Car Parking On The Ground Floor. In Parking Portion Only Of The Property Bearing, No.a-242, New Friends Colony, New Dehi 110055, Johngwith	SEP-202
	PARTNERS / AR / DIRECTOR / PROPRIETORS)		and Und	individed, Invisible And Impartible Ownership Right erneath, Right Of Usage Of Common Passages pproach Of Property Etc. With All Rights, Title	And

At: H.NO-A-242, First Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065 Mobile No - 9718193600 Also At: E-116, Sector-63, Noida, UP-201301, Mobile No - 9718193600

Thereon, With All Rights In Entrances, Passages, Staircase And Othe

MADHAV MARBLES AND GRANITES LIMITED

Chais: Investor-feations/generalizar/bloss-cost inst. 2043-229 1009

NOTICE OF 34" ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND E-VOTING
The 34" Annual General Meeting (TASM") of the Members of Madria Marbles and Grantes Limit
stills had doed Frield, the September 29, 2023 at 10:30 an. Indian Standard Time, though (Vid.
Antenencing (VII.") Other Anto Viscal Mone ("TAMM"), in complicates with all the applicate
stills, Rebermand theremed and the SEBI Uniting Obligation
Thanks of the Complex Set, 2013 facts, Rebermand theremed and the SEBI Uniting Obligation
Thanks of the Complex Set, 2013 facts, Rebermand theremed and the SEBI Uniting Obligation
Thanks of the Complex Set, 2013 facts, Rebermand theremed and the SEBI Uniting Obligation
Thanks of the Complex Set, 2013 facts, Rebermand theremed and the SEBI Uniting Obligation
Thanks of the Complex Set, 2013 facts, Rebermand theremed and the SEBI Uniting Obligation
Thanks of the Complex Set, 2013 facts, Rebermand theremed and the SEBI Uniting Obligation
Thanks of the Complex Set 2013 facts of the Complex Set nethenoming "MC"; (There Audit Visical Mance ("DAM"), in companses with an an agree-voisions of the Companies Act, 2013 Act, 14 Molecumbel Internated and the SBI (Litting (Diligations)) of Dischouse Requirements Regulations, 2015 FSEB Listing Regulations? read with the General Act of the Companies of the SBI (1998) Act of Companies Act of Comp

(JAWM shall be reclamed for the purpose of ignorum under Section 103 of the Art: comprisioner with the relevant circulast; he Notice of AGM and the Financial Statements for the ancial year 2022-23 along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to statebach thereoic policetively referred or "Annual Report" vill be sent only thready electronic de to all the Members of the Company whose small addresses are registered with the many/registers and Shate Traister Agent (RTA) or Dispository Participant (IDP). The adressald many registers are supported to the company of the co rymegistal and same natisfer Agent with 0 Depository Participant. Or, the adversarial near (s) will also be available on the website of the Company at www.madhavmarbles.com and at the websites of the Stock Exchanges and Central

document(s) will also be a valiable on the website of the Company at Mitspillwowsmebbambbe.com and of the website of the Sock Exchanges and Central Depository Services (India) Ltd.

The Company at producing ments as the India of the MAM. Addisonable, the Company as the India of the Company at the Company and the Company of the Company at the Company of the Company and the Company of the Company of the Mark Company (India) be the producing the Company of the Mark Company (India) be the producing the Mark Company (India) when the Company of the Mark Company (India) be the producing the Mark Company and the Company of the Mark Company (India) be the Company and the Company of the Company of the Mark Company (India) and Mark Company (India) and the Company and the Mark Company of the Mark Company of the Mark Company (India) and the Mark Company of the Mark Company of the Mark Company of the Mark Company (India) and the Mark Company of the Mark Mark Company of the Mark C

nivestor: relations@madhawmarklies.com Pursuant to the provisiens of Section 91 of the Act and Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODB) Regulations, the Regulate of Manifers and Share Transfer Bowks of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both day

By Order of the Board For Madhay Marbloc & Cranitoc Limite Sdf-Priyanka Manawat (Company Secretary)

financialexp.ep.m.in

JINDAL PHOTO LIMITED

Regd. Off.: 19" K.M., Hapur-Bullandshahr Road, P.O. Gulaothi, Dist Bullandshahr (U.P.) - 245400 Head Office: Pict No. 12. Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kurij, New Delhi-11007 Tol. No. 104.40122401 Examil: or. Inhabitation come Wilehalm vasaw Windshahr zero. NOTICE OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING

sidos in belong giann hat the 20° Annual General Meeting (n AGAP) or the company on war with Westerleady 27° AT 20° ANNUA et Westerland (27°) and the Meeting AGAP (27° AGAP) or the company of the Control of the Contr hat the 20" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be plamber, 2023 at 12.30 P.M. at Hotel Natraj. Delhi Road, Kala Aarr

oring pilations to be manchase of the Company to cast this visab through auxiliary in respe-tisions, as set out in the Notico dated 51 Yausus, 2023. The month e-oring people encose on Sunday, 24° September, 2003 (6:00 am. 18°) and ends on Tuseday, 26° those 2203 (5:00 am. 18°). During this people obta staterbolers of the Company, holidly e-librar in physical form or in dematterialized form, as on the out-off date of 20° September may cast their orticle actionnally formate e-orthigo. The e-oring mode et all the disable 1.0 or e-voltage threads the superior of the company and the contraction of the company and the company and cast the disable contraction of the company.

www.grocourum.st.steenCoster.may.gr.nt book with this following:

I follow filed filed [M-1] to M. I follow filed [Phot Unified]

Mr. Sappan Kurnan Naskars
Sosober Ver President Affeed (North India)

Mr. Ashok Vikabo

Mr. Sappan Kurnan Vikabar

Mr. Sappan Kurnan



HERO HOUSING FINANCE LIMITED

DEMAND NOTICE thon 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of st Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Ru

with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Oblig Representative(e) to pay to HHFL, within 60 days from the date of the amounts indicated herein below against their respective names, to

one or payment and for realisation, read with the loan agreement and other obcument if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, thi Secured Asset(s) have been mortigaced to HHFL by the said Obligor(s) respectively.

Loan	Name of Obligor(s)/Legal	Total Outstanding Due	Date of	Date of
Account No.	Helr(s)/Legal Representative(s)	Rs. as on below Dates	Demand Notice	NPA
HHFDELHOU	Sanlay Kumar.	Rs. 7,87,180/-	28-Aug-2023	04-Aug
20000010735	Renu Wife Of Hazari Lal	as on 22-Aug-2023		2023

ways Deposite September 1 Sept

ith further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in office dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payme nidro realization. If the said Cicliptinis, shall all to make payment to HHHL as aforesaid, then HHHL sh opced against the above Secured Assoti(s)/Immovable Property(les) under Section 13(4) of the said A nid the applicable Fulles entirely at the risk of the said Cicliptinis(Legal Herris)Legal Representative (s).

a sald Cicligon(s) (Legal Helris) Legal Representative(s) are profilored under the said Act to the resaid Secured Asset(s) (immovable Property, whether by way of sale, lease or otherwise was written consent of HHFL. Any person who contravenes or ables contravention of the provision of the prov

DATE : 03-SEP-2023, PLACE : DELHI Sd/- Authorised Offic For HERO HOUSING FINANCE LIMITE

ASSOCIATED FINMAN LIMITED Regd. off: 59/17, Ground Floor, Bahubali Apartments, New Rohtak

Road New Delhi, LIC CIN: L65910DL1984PLC018871 Website:

NOTICE is hereby given that the 39th Annual Go-company is scheduled to be held on Saturial pelpentners, 2023 at 11:00 AM at 5917. Grou-spatiments, New Robtek Road, New Delhi, -11 whoreas as set out in ADM Notice dead 91st Day The Notice convening the 38th AGM and the Ad-mandal year 2022-2023 have been sent to the mo-to the e-mail ID registered by them with the Co-tratignatis and wave been dispetched as per it-hose members who have not registered their e-mail peopolitry Participants and whore 100 at 2023 2023. sal General Meeting office sturday, the 30th Day of Ground Floor, Bahubali , - 110005 to transacthe it Day of September, 2023, the Annual Report for the the members electronically

principants and have been dispatched as per the principals mode to occur and the principal control to the principal contr

For Associated Finman Limited Sdi-Dhiral Guota Chairman & Managing Diractor Place: New Delhi Date: 02.09.2023

NEWAGE MARKETING LIMITED Regd. off: 59/17, Ground Floor, Bahubali Apartments. New Ro

untal revelopmen levies (1964 (great learn processes) and processes (learn processes (le

cells, The details pursues to the provisions of the Component Ad, 2013 cells, The details pursues to the provisions of the Component Ad, 2013 cells of the Component Compone

and up final.

Pursuant to the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation 2015, members who do not have access to e-voting facility, may exercise their vote at the AGM of the company by submitting ballot forms which will be distributed at the venue of the AGM.

For Newage Marketing Limited Sdl-

SHAKUMBHRI PULP AND PAPER MILLS LIMITED Civ. 1.21012UP1898PLC007571 Regd. Off. 4.5 KM, Bhopa Road, Muzaffarnagar, Ultar Pradesh-251001 Ph. No. 789554288, Email: shahumbhripsper@gmail.com. Webelter www.shakumbhripu

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that to 38" revenue General meeting of Sheaholders of the Company with MINIOTE is hereby given that the 38" revenue General meeting of Sheaholders of the Company with the hereby given that the 38" revenue General meeting of Sheaholders of the Company with the hereby General 11:00 A.M. of registered office of the company at 4.5 KM, Bope Read. Musefferinger, Uther Predicts—1250 100 from times the business set of air the Notice of the company at 4.5 KM, Bope Read. Musefferinger, Uther Predicts—1250 100 from the times and the set of the company at 4.5 KM, Bope Read. Musefferinger, Uther Predicts—1250 100 from the times and the set of the company at 4.5 KM, Bope Read. Musefferinger, Uther Predicts—1250 100 from the set of the set of 15" AGM is take available on the Company's website was ablactantial explaint of 150 from the set of 15" AGM is take available on the Company's website was also valuable on the Company's between the set of 15" AGM is take available of 150 from the set of 150 from the set of 150 from the set of 150 from the 150

remote e-voling through execution cross scale into be airowed beyond 3 UP P.M. of 27 "September, 2023. A immeter may periodicage in me general meeting, peach and exercising network grid to vole through remote a -voling, but shall not be airowed to vote again in the meeting. Secility for voting will also be made available during the ASM and those present in the ASM who have not extend the register of members or in the register of beneficial cowners maintained by the depositories are on the cut-off disco only shall entitled to scale that Secility for remote a --voling. The manner of Remote e-voling and in the ASM for Members holding shores in physical mode or in demandation of the companies of th

By Order of the Board FOR SHAKUMBHRI PULP & PAPER MILLS LIMITED

Date: 02.09.2023 Place: Muzaffarnagar (Avushi Gupta

VIKALP SECURITIES LIMITED

Regd. Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH -208001
CIN-L65993UP1986FLC007727, Contact No: 0512-2:72665
Email id: vikalpsecurities-limited@gmail.com
Website: www.vikalpsecurities.com
NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE

E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE is hereby given that 37TH Annual General Meeting (AGM) of the
members of VIKALP SECURITIES LIMITED (the Company) is scheduled
to be held on Monday, 25th of September, 2023 at 09:00 A.M. at the registered
office of the Company at 25/38, Karachi Khana, Kanpur-208001, Uttal Pradesh
to transact the business as stated in the Notice of the AGM dated August 11,
2023 (Leb Notice).

to transact the business as stated in the Notice of the AGM dated August 11, 2023 (the Notice). In terms of the provisions of Sections 101 and 136 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and any other applicable provisions, the Notice setting out the Ordinary and Special Businesses to be transacted at the AGM together with the Attendance Slip and Proxy Form along with the Annual Report for financial year 2022-23 on Wednesday, August 30, 2023 through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories / Skyline Financial Services Private Limited.

The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.vikalpsecurities.com on the website of the Stock Exchange, i.e. BSE Limited at www.bscindia.com and also on the website of the Company's Registrar and Share transfer Agent, Skyline Financial Services Private Limited of www.bscilida.com.

at www.skylinerta.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard - 2 on General Meetings and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements). Regulations, 2015 (Listing Regulations), each as amended from time to time, the Company is pleased to provide to its Members, the facility to exercise their right to over electronically, through e-voting services provided by National Securities Depository Limited from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting), on all resolutions as set out in the Notice. The manner of remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice.

The members of the Company are further informed as follows:

a. The remote e-voting commences on Friday, 22nd of September, 2023, 09:00 A.M. IST and end on 24th of September, 2023, 05:00 P.M IST. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up share capital of the Company as on 18th of September, 2023 (cut-off date).

c. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have east their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be allowed to cast their

vote again. vote again.

d. The members, whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as on September 18, 2023, being the cut-off date, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. A persor who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

e. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of this Notice but on or before the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM.

f. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQS) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to NSDL Official at evoting for the province of the provi evoting@nsdl.co.in.

g. Mr. Adesh Tandon, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer, for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner.

The treatment is the conclusion of the AGM and the resolutions will be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM and the resolutions will be deemed to be passed on the AGM dates subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the

The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available or the website of the company and on the website of National Securities Depository Limited and will be communicated to all the Stock Exchanges where company is Listed.

Notice is further given that the register of Members and Share transfer Books of the Company pursuant to Section 91 of the Act will remain closed from Monday, September 18, 2023 to Sunday, September 24, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For Vikalp Securities Li

Arun Keiriwa Managing Director DIN: 00687890







Date: 2nd September, 2023



